



PAUL MERCHANTS

Paul Merchants Limited

An ISO 9001 : 2015 Certified Company CIN : L74900DL1984PLC018679

Corp. Office : PML House, SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh-160022

Ph. 0172-5041740, 5041757, 5041792 Fax : 0172-5041713

Regd. Office : DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg,

Najafgarh Road, New Delhi-110015 Ph. : 011-48702000

www.paulmerchants.net info@paulmerchants.net

Corporate Relations Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001.

PML/BSE/BM/2024/42
Date: May 17, 2024

SUB: - PUBLICATION OF AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER & FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2024

SCRIP CODE: - 539113

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the copies of the Newspapers "The Financial Express" dated May 17, 2024 and "Jansatta" dated May 17, 2024 in which Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended on March 31, 2024 have been published by the Company, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said results had been reviewed by Audit Committee in its meeting held on May 15, 2024 and thereafter duly approved and taken on record by the Board of Directors of the Company in their Meeting held on May 16, 2024.

Please take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For PAUL MERCHANTS LIMITED

(HARDAM SINGH)
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
FCS 5046

Enc: Newspaper publications

NMDC Limited
(A Government of India Enterprise)
Donimalai Complex
Donimalai Township - 583 118, Dist: Ballari, Karnataka,
Phone : 08395-274638 274624, Fax : 08395 - 274009, 274649
Corporate Identity Number - L13100TG1955 GOI 001674

EOI NO-DNM/PPT/EOI-1/2024 Date: 16.05.2024
EXPRESSION OF INTEREST NOTICE (EOI)
Item Description: THE WORK OF OPERATION AND MAINTENANCE OF 1.2MTPA PELLET PLANT (1.89MTPA BENEFICIATION PLANT and 1.2MTPA PELLET PLANT & MRSS) FOR PRODUCTION OF 12,00,000 METRIC TON PER YEAR OF IRON ORE PELLETS ON PROFIT SHARING/REVENUE SHARING BASIS FOR A PERIOD OF TEN (10) YEARS AT 1.2 MTPA PELLET PLANT, DONIMALAI, KARNATAKA FOR MAKING IRON CONCENTRATE AND FINAL SALEABLE PELLETS. Prospective Bidders having relevant experience of providing services of similar nature are invited to submit their application by 6th June, 2024 to be followed by participation in discussion /Presentation meeting at Pellet Plant, NMDC Ltd. Donimalai. Please refer to the EOI Document hosted on the website http://www.nmdc.co.in/nmndctender/default.aspx and also in CPP Portal for further details. For further clarifications, The Project Manager, Pellet Plant, Donimalai Complex, Donimalai Township, Dist. Bellary Karnataka, 582118 or at gvrao@nmdc.co.in and srikanth.y@nmdc.co.in
For and on behalf of NMDC Ltd.,
Project Manager, Pellet Plant

MAYANK CATTLE FOOD LIMITED
Regd. Office: R.S. No. 162, Rajkot Jamnagar Highway, Near Khandheri Stadium, Vill. Naranka, Tal. Paddhari, Rajkot, Gujarat, 360110, India.
CIN: L01210GJ1998PLC033969 E-mail: info@mayankcattlefood.com • Website: www.mayankcattlefood.com

EXTRACT OF STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED AND YEAR ENDED 31 MARCH, 2024 (AUDITED)

Sr. No.	Particulars	Half Year Ended					Year ended				
		31.03.2024		30.09.2023		31.03.2023		31.03.2024		31.03.2023	
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income From Operations	17,346.07	11,683.44	13,506.32	29,029.51	30,918.05					
2	Net Profit / (Loss) Before Tax	232.60	167.50	108.54	400.10	171.52					
3	Net Profit / (Loss) After Tax	191.85	101.58	79.96	303.43	127.25					
4	Paid-up equity share capital	540.00	360.00	20.00	540.00	20.00					
5	Reserves (Excluding Revaluation Reserves & Government Grant)	2,150.33	227.57	455.99	2,150.33	455.99					
6	Earnings Per Share (EPS) not annualized (FV. Rs. 10/- each)	4.93	2.82	2.22	7.80	3.53					
	Diluted (in Rs.)	4.93	2.82	2.22	7.80	3.53					

Notes:
1 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 16 May, 2024. The statutory auditors of the company have carried out limited review of the financial results for the half year ended 31 March 2024.
2 The Above Financial Results have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards as prescribed u/s, 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant provision of the Act as amended and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
3 The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the half year and year ended 31st March, 2024 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results for the half year and year ended 31st March, 2024 are available on the Company's website at www.mayankcattlefood.com and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.
4 Previous periods / years' figures have been re-grouped / re-classified, where necessary to make it comparable with the current period.

Place : Rajkot
Date : 16 May, 2024

Ajay P. Vachhani
Whole time director • DIN - 00585290

SUNSHIELD CHEMICALS LTD
SUNSHIELD CHEMICALS LIMITED
Corporate Identity Number : L99999MH1986PLC041612
Regd. Office: 1501-A, Universal Majestic, P.L. Lokhande Marg, behind RBK International School, Chembur-West, Mumbai - 400 043 | Phone No. : 25550126
E Mail: investorservices@sunshieldchemicals.com | Website: www.sunshieldchemicals.com

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

Rs. In Lakhs (Except earnings per share)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended (Unaudited)			Year ended (Audited)	
		Mar 31, 2024	Dec 31, 2023	Mar 31, 2023	Mar 31, 2024	Mar 31, 2023
		1	Total income from operations	8,588	6,557	6,721
2	Net Profit for the period / year before tax	857	729	450	2,674	1,908
3	Net Profit for the period / year after tax	599	513	335	1,884	1,366
4	Total Comprehensive Income for the period / year	558	516	344	1,853	1,379
5	Paid up equity share capital (face value of Rs.10/-each)	735	735	735	735	735
6	Other Equity	-	-	-	7,484	5,865
7	Basic & Diluted Earnings per Share (of Rs.10/- each) (not annualised for the quarter)	8.15	6.97	4.56	25.62	18.58

Note:
1 The aforesaid financial results of Sunshield Chemical Limited (the "Company") were reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on May 16, 2024. The same have been audited by the Statutory Auditors who have issued an unmodified opinion on the aforesaid results.
2 The above is an extract of the detailed format of quarterly/year ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/year ended Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and also on the Company's website www.sunshieldchemicals.com

For and on behalf of the Board of Directors
SUNSHIELD CHEMICALS LIMITED
Jeet Malhotra
Managing Director & CEO
DIN : 07208234

Place : Mumbai
Date : May 16, 2024

E-AUCTION SALE NOTICE
FOR SALE OF ASSETS OF EXCEL GLASSES LIMITED (In Liquidation)
Registered Office: Udaya Nagar, Pathirappaly, Alappuzha, P. O. Alleppey, Kollam - 688521, Kerala.
CIN: L26109KL1970PLC002289

(Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)
The undersigned Liquidator of Excel Glasses Limited (Corporate Debtor in Liquidation) appointed by the Hon'ble NCLT, Kochi Bench, vide order dated 21.10.2019, intends to sell the following immovable properties forming part of the Liquidation estate of the Corporate Debtor through E-auction on "as is where is basis", "as is what is basis", "whatever there is basis" and "without recourse basis". Sale will be done by the undersigned through E-Auction service provider National E-Governance Services Ltd (NeSL) (website: https://nbiid.nesi.co.in/app/login).

Date and Time of 22nd E-auction:	Wednesday, 19th June, 2024, 3 PM to 5 PM
Last Date and Time for submission of EOI including KYC documents, Eligibility Criteria documents, etc. by the Prospective bidder:	Up to Thursday, 6th June, 2024 by 5 PM
Date of declaration of Qualified Bidder(s)	Up to Friday, 7th June, 2024
Date and Time for inspection/due diligence of assets under auction by the Qualified Bidder(s):	Up to Friday, 14th June, 2024 with one-day prior intimation to Mr. Sudhanshu Pandey - Mob. - 9821916190 11:00 am - 3:30 pm (except Sundays and Kerala State Holidays).
Last date for submission of Declaration Forms and Earnest Money Deposit	Up to Friday, 14th June, 2024 by 3 PM

Sr. No.	Description (Assets)	Reserve Price (Rs. in lakhs)	EMD (10% of Reserve Price) (Rs. in lakhs)
Block 1	Land opposite to Infocity Campus, Pallipuram Village, Cherthala Taluk, Alappuzha, Kerala - 688541 - Land Area - 1.22 acres - 4.937 sq mts	92.70	9.27

Interested Bidders may refer to detailed terms and conditions and tender documents (Sale Process Memorandum) through websites: https://nbiid.nesi.co.in/app/login and http://www.excelglasses.com and can also visit www.ibbi.gov.in for the sale auction notice. They can contact through Email: araventhans@nesi.co.in, ipsupport@nesi.co.in, sankar@nesi.co.in, neelid@nesi.co.in or write to the undersigned at ip.ravinchaturvedi@gmail.com, contact numbers: Mr. Araventhans SE +91-9384676709, Mr. Neel Doshi +91-9404000667 or can contact Mr. Sudhanshu Pandey Mob. No. -91-9821916190.

The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s)/bids or adjourn/postpone/cancel the E-auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage. Any revision in the sale notice will be uploaded on the Excel Glasses Limited website http://www.excelglasses.com and on https://nbiid.nesi.co.in/app/login. It is requested to all the bidders to kindly visit the website regularly.

Place: Mumbai
Date: 17.05.2024

Ravindra Chaturvedi
Liquidator of Excel Glasses Limited (In Liquidation)
IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00792/2017-18/11359 (AFA valid upto 19.11.2024)
Address: 31-E, BKC Centre, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400053

BATA INDIA LIMITED
CIN : L19201WB1931PLC007261
Registered Office: 27B, Camac Street, 1st Floor, Kolkata - 700016, West Bengal
Telephone No. : 033 23014400 | Fax : 033 22895748
Share Dept. Telephone No. : 033 22895796
E-mail: share.dept@bata.com | Website: www.bata.in

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
Sub.: Transfer of Equity Shares held in Bata India Limited ("the Company") to the Demat Account of the Investor Education and Protection Fund Authority - Ministry of Corporate Affairs (IEPF), in respect of which dividend remaining unclaimed or unpaid for the seven consecutive years

This is further to our individual communication to the concerned shareholders at their latest available addresses in terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (as amended) ("the Act") read with IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (as amended) ("IEPF (AATR) Rules, 2016") and other applicable rules, notifications and circulars, if any, requiring every company to transfer the shares, in respect of which dividend remains unpaid / unclaimed for a period of seven (7) consecutive years to the Demat Account of the IEPF Authority ("the IEPF Demat Account").

In this regard, Notice is hereby given to the shareholders holding shares relating to which they have not encashed their dividend since 2016-17 (i.e. none of the dividend(s) declared since 2016-17 were claimed/encashed), that such shares are liable to be transferred by the Company under the IEPF Rules to the IEPF Demat Account. Necessary details in this respect are available at www.bata.in under the 'Investor Relations' section for taking appropriate action.

The shareholders of the Company who have not encashed their dividend are being given an opportunity, as per the prescribed Rules, for claiming their dividend by making a written application under physical signature(s), giving complete postal address alongwith Pin Code and Folio No. / DP ID & Client ID together with a cancelled original cheque leaf of the Bank account bearing the name of the first / sole holder, details of Bank, Branch, Account Number, MICR code, IFSC code, etc., failing which copy of Bank passbook / statement duly attested by the Bank (not more than one month old) with all such required details and self-attested copy of Income Tax PAN card(s) of registered shareholder(s), i.e., including joint holder(s) to the Company at its Registered Office or to M/s. Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company.

You are further requested to register your email ID with the demat account through your Depository Participant (DP) immediately against shareholding in demat mode.

In order to comply with the IEPF Rules, the Company will proceed to transfer the equity shares to the IEPF Demat Account unless a valid claim is received by the Company/its Registrar and Share Transfer Agent by 15/06/2024. Thereafter no claim shall lie against the Company in respect of such shares transferred to IEPF Demat Account pursuant to the IEPF Rules.

The Shareholder(s), whose equity shares are liable to be transferred to the IEPF Demat Account, may kindly note that as per the IEPF Rules:-

- In case of Equity Shares held in Physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and the concerned depository shall convert the duplicate share certificate(s) into Demat form and shall transfer the shares in favour of the IEPF Demat Account. The original share certificate(s) registered in the shareholders' names will stand automatically cancelled and deemed non-negotiable.
- In case of Equity Shares held in Demat form: Concerned depository will give effect to the transfer of the equity shares liable to be transferred in favour of the IEPF Demat Account by way of corporate action.

The shareholders may please note that unclaimed / unpaid dividend and equity shares transferred to the IEPF Demat Account including benefits accruing on such equity shares, if any, can be claimed from the IEPF Authority by making an online application in the prescribed web Form IEPF-5 (available on the website www.iepf.gov.in / the webpage address for the said web Form is also given on our website www.bata.in) and thereafter sending it duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company/Depository) physical copy alongwith the requisite documents enumerated in Form IEPF-5 to the Company for verification. For further information/ clarification, contact at any of the following addresses:

BATA INDIA LIMITED Registered Office & Share Department: 27B, Camac Street, 1st Floor, Kolkata - 700016 Telephone: 033 22895796; Fax: 033 22895748 E-mail: share.dept@bata.com Website: www.bata.in	LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED Unit : Bata India Limited C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 Telephone: 8108116767; Fax: 022 49186060 E-mail: rt.helpdesk@linkintime.co.in
---	---

For BATA INDIA LIMITED
Sd/-
NITIN BAGARIA
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Gurugram
Date : 16.05.2024

JHARKHAND ROAD PROJECTS IMPLEMENTATION COMPANY LIMITED
Registered Office : 443/A, Road No 5, Ashok Nagar, Ranchi - 834002.
http://www.itnlindia.com/IRPCL-SPV.aspx CIN: -U45200JH2009PLC013693

Statement of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter ended			Year ended		
	Mar 31, 2024	Dec 31, 2023	Mar 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	7,809	8,467	8,918	35,064	33,434
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(7,803)	(1,488)	(5,373)	(8,677)	1,815
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7,803)	(1,488)	(5,373)	(8,677)	1,815
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7,803)	(1,488)	(5,373)	(8,677)	1,815
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(7,803)	(1,488)	(5,373)	(8,677)	1,815
6	Paid-up equity share capital (face value - ₹ 10)	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950
7	Reserves (excluding revaluation Reserve)	(52,378)	(44,575)	(43,701)	(52,378)	(43,701)
8	Securities Premium Amount	-	-	-	-	-
9	Net worth	(26,428)	(18,625)	(17,751)	(26,428)	(17,751)
10	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	1,74,725	1,72,340	1,89,091	1,74,725	1,89,091
11	Outstanding Redeemable Shares	-	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio (number of times)	(6.61)	(9.25)	(10.65)	(6.61)	(10.65)
13	Earnings per share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (*Not annualised):					
(a) Basic	-0.3*	-0.06*	-0.21*	(3.34)	0.70	
(b) Diluted	-0.3*	-0.06*	-0.21*	(3.34)	0.70	
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-
15	Debtenture Redemption Reserve	11,409	11,409	11,409	11,409	11,409
16	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (number of times)	-	-	0.83	1.60	1.34
17	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (number of times)	-	-	0.83	1.88	1.70

Notes to the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024:
1 The above is an extract of the detailed format of financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the year financial results are available on the websites of the National Stock Exchange (NSE) - www.nseindia.com and the Company's - www.itnlindia.com/IRPCL-SPV.aspx
2 For the items referred in the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures can be accessed on the (www.nseindia.com) and on the Company's website - www.itnlindia.com/IRPCL-SPV.aspx
3 The above results for year ended March 31, 2024 are in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs, read with SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/69/2016 dated August 10, 2016.
4 The above financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 16, 2024 and have been audited by the Statutory Auditor of the Company.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Rajnish Saxena
Director
DIN: 05188337

Place: Ahmedabad
Date: 16th May 2024

HIGHWAYS INFRASTRUCTURE TRUST
SEBI Registration No. IN/InvIT/21-22/0019
Principal Place of Business: 2nd Floor, Piramal Tower, Peninsula Corporate Park, Lower Parel, Mumbai - 400013.
Corporate Address: Unit 601-602, 6th floor, Windsor House, Off CST Road, Kalina, Santacruz(E), Mumbai - 400098.
Tel: +91 75063 33445 E-Mail: highwaysinit@highwaysconcessions.com Website: www.highwaysitrust.com

Extract of Statement of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024

(All amounts in ₹ millions unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		March 31, 2024	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	8,538.30	1,600.34	14,127.92	6,152.35
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	444.34	258.02	1,888.75	964.48
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,245.20)	258.02	(1,800.79)	964.48
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,213.68)	207.14	(2,009.99)	341.99
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(3,214.18)	207.03	(2,011.04)	342.89
6	Unit capital	68,590.00	41,550.00	68,590.00	41,550.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(42,602.37)	(37,168.34)	(42,602.37)	(37,168.34)
8	Net worth	25,987.64	4,381.66	25,987.64	4,381.66
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt (In times)	1.84	2.81	1.84	2.81
10	Debt Equity Ratio (In times)	1.44	3.37	1.44	3.37
11	Earnings Per Units (of Rs. 100/- each)				
1. Basic:	(4.72)	0.50	(4.17)	0.82	
2. Diluted:	(4.72)	0.50	(4.17)	0.82	
12	Debtenture Redemption Reserve	-	-	-	-
13	Debt Service Coverage Ratio (In times)	1.31	1.60	1.50	0.20
14	Interest Service Coverage Ratio (In times)	2.19	2.65	2.55	1.97
15	Current Ratio (In times)	2.14	2.47	2.14	2.47
16	Long Term Debt to Working Capital Ratio (In times)	2.83	6.88	2.83	6.88
17	Total Debts to Total Assets (In times)	0.45	0.62	0.45	0.62
18	Current Liability Ratio (in %)	16.66%	6.80%	16.66%	6.80%
19	Debtors Turnover (In times)	891.63	1339.19	754.27	328.47
20	Bad Debts to Account Receivable Ratio	NA	NA	NA	NA
21	Inventory turnover *	NA	NA	NA	NA
22	Operating Margin (in %)	20.24%	37.96%	32.14%	51.28%
23	Net profit Margin (in %)	-37.64%	12.94%	-14.23%	5.56%

*The Trust does not have any Inventory, therefore Inventory Turnover Ratio is not applicable.
Notes:-
1 The aforesaid results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board at their respective meetings held on May 16, 2024.
2 The above is an extract of the detailed format of Audited consolidated Financial Results/Information for the Quarter and Year ended March 31, 2024. The full format of the Audited consolidated Financial Results/Information is filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI LODR Regulations"). Investors can view the full format of the Audited consolidated Financial Results/Information of Highways Infrastructure Trust (the "Trust") for the Quarter and Year ended March 31, 2024 on the Trusts' website (www.highwaysitrust.com) or on the website of BSE Limited (www.bseindia.com).
3 For the other line items referred in regulation 52(4) and 54(3) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on the Trusts'

For and on behalf of the Board of Directors
Highways Concessions One Private Limited
(Acting as Investment Manager to Highways Infrastructure Trust)
Sd/-
Gaurav Chandna
Joint CEO & Executive Director
DIN : 10312924

Place : Mumbai
Date: May 16, 2024

PAUL MERCHANTS LTD. (An ISO 9001:2015 Certified Co.) (CIN: L74900DL1984PLC018679)
CORP. OFF.: PML House, SCO 829-830, Sector 22 A, Chandigarh 160 022 Ph. 0172 5041786, 5025090, Fax: 0172 5041709
E-mail: info@paulmerchants.net Website: www.paulmerchants.net
REGD. OFF.: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi-110015. Ph: 011-47529460

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2024

Rs in Lakhs except per share data

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Three Months Ended 31.03.2024	Corresponding 3 Months Ended in the previous Year 31.03.2023	Current Year to date ended 31.03.2024	Previous Year ended 31.03.2023	Three Months Ended 31.03.2024	Corresponding 3 Months Ended in the previous Year 31.03.2023	Current Year to date ended 31.03.2024	Previous Year Ended 31.03.2023
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	85,542.71	166,817.04	650,184.37	689,975.80	90,115.10	169,760.53	666,657.64	701,089.89
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	368.67	839.30	3,253.77	3,495.88	1,227.84	1,102.67	7,310.67	5,970.75
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	368.67	839.30	3,513.77	3,495.88	1,227.84	1,094.13	7,280.17	5,962.21
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	279.70	644.20	2,612.48	2,598.40	933.59	843.39	5,462.56	4,401.17
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	280.08	645.66	2,591.62					

HDFC BANK मुख्य कार्यालय: एमडीएफसी बैंक लि., एमडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बाघट, मार्ग, होसर परेल, मुंबई-400013
शाखा कार्यालय: दूसरी मंजील, आरपीओ गैलेरी, विजयवाडी रोड गंगा नगर - मेरठ पिन - 250001, यू.पी.

मांग सूचना

वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना। निम्नलिखित कर्जदारों एवं सह-कर्जदारों का प्रतिकृत अधिकारी होने के नाते कर्जदारों सहित निम्नलिखित प्रतिकृत ऋण प्राप्त किए थे। निम्नलिखित कर्जदारों एवं सह-कर्जदारों के ऋण उन्नीची संवधि समाप्तियों के बावजूद प्राप्त प्रतिकृत किए गए थे। वृद्धि से संबंधित ऋण अनुबंधों के निष्पत्ति एवं शांति का पालन करने में असफल रहे और अधिनियम की एच. 9 एवं अध. 10 के तहत आदेशों/आदेशों दिनांकित दिनांकित के अनुसार एमपीए की अनुमति प्राप्त किए जा चुके हैं। उक्त ऋण एमडीएफसी बैंक लिमिटेड को देय शेष राशि नीचे तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू अनुसार देत होगा जो उसकी संबंधित तिथि से प्रभावित किया जाएगा।

कर्जदारों एवं सह-कर्जदारों/बंधकदारों का नाम - अन्ना शरण एमपीए इसकी स्वामिनी श्रीमती मीनू खन्ना (कर्जदार) के माध्यम से पता: दुकान नंबर 53बी 96 थी, श्री राम लता, नई मंडी, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश-250001 (कर्जदार)।
2. श्रीमती मीनू खन्ना पत्नी स्व. श्री मनु खन्ना पति लेन नंबर 22, सुभाष नगर, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश-250001 (सह-कर्जदार एवं बंधकदार)।
3. श्रीमती रंजिता खन्ना पत्नी स्व. श्री मनीष चंद्र खन्ना पति लेन नंबर 162, नतीबी कॉलोनी, सुभाष नगर, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश-250001 (सह-कर्जदार एवं बंधकदार)।
4. श्री अश्विनी मीनू खन्ना जी/श्री श्रीमती मीनू खन्ना पति - लेन नंबर 22, सुभाष नगर, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश-250001 (सह-कर्जदार)

अपल सम्पत्ति एवं प्रतिकृत की जानकारी - बंधकदार 177 वीं मीटर, अंश 1 नंबर 738/2, मोहल्ला सुभाष नगर, ग्राम शरद, अहमदाबाद, गुजरात एवं तहसील मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश भारत, पिन-250001 (सह-कर्जदार एवं बंधकदार) एवं रंजिता खन्ना द्वारा स्वामिनी।

ऋण सुविधा तथा खाता सं. 88624121
13(2) के अनुसार बकाया राशि/सूचना की तिथि: 05-02-2024
रु. 54,28,187/- - 27-03-2024 तक/सूचना की तिथि: 27-03-2024

यूएफ आरके उस पते, जहां आम मूल रूप से निवास करते हैं/व्यवसाय निष्पत्ति करते हैं/व्यक्तिगत रूप से लाभकारी करते हैं/पर भेजी गई सूचनाएं हमें आपका पता हो चुकी है, अतः हम यह सूचना प्रकाशित करवाने के लिए बाध्य हुए हैं। एतद्वारा आपसे अपेक्षित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपरोक्त प्रतिकृत देवता का निवेदन, उन पर उन्नीची संवधि विधियों से संबंधित 3, 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत संबंधित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्मुताबक करने को सूचना दी जाती है। संबंधित कर्जदार कथित राशि का भुगतान करने में असफल रहे और: एतद्वारा कर्जदारों, जमानतियों तथा जमानतियों को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरकारी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में सीधे/कोट विलेनरी द्वारा पारित मुदतमात्र प्रतिकृत 185/2023 अर्थात् दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर भौतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से संबंधित कर्जदारों तथा जमानतियों को एतद्वारा अनुप्रेक्षित सम्पत्तियों के साथ कोई संयोजन न करने को चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संयोजन नीचे वर्णित संबंधित राशि के लिए मेरस इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधीन होता है।

तिथि: 17-05-2024, स्थान: मेरठ

प्राधिकृत अधिकारी, एमडीएफसी बैंक लिमिटेड

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
(पूर्व का इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड)
रजिस्टर्ड कार्यालय: नं. 769, सेंसर प्लाजा, 4था तल, फेज-कड अना सलाह, चेन्नई, तमिलनाडु-600 002

कब्जा सूचना (धारा 8(1) के तहत-अवल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिकृत हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के तहत मेरस इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिकृत हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत संबंधित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्मुताबक करने को सूचना दी जाती है। संबंधित कर्जदार कथित राशि का भुगतान करने में असफल रहे और: एतद्वारा कर्जदारों, जमानतियों तथा जमानतियों को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरकारी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में सीधे/कोट विलेनरी द्वारा पारित मुदतमात्र प्रतिकृत 185/2023 अर्थात् दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर भौतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से संबंधित कर्जदारों तथा जमानतियों को एतद्वारा अनुप्रेक्षित सम्पत्तियों के साथ कोई संयोजन न करने को चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संयोजन नीचे वर्णित संबंधित राशि के लिए मेरस इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधीन होता है।

क्र. सं.	कर्जदारों/गारंटियों का नाम	प्रतिकृत आसित (अवल सम्पत्ति) का विवरण	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि	सूचना की राशि (रु.)	पुनः कब्जे की तिथि
1	1. श्री केशव देवता 2. श्रीमती विठ्ठल देवता 3. श्री गणेशजी देवता 4. श्रीमती मीनू देवता एच. नं.: SERAMUD0289644 शाखा: रावसमर	गैर-कृषि संपत्ति का समेत मांग, आवासीय संपत्ति आरआईओ, नंबर 1287, ग्राम भुवनाड, ग्राम पंचायत कुतल, पंचायत समिति रेलमनार, तहसील रेलमनार, जिला (राज.) 313328 (क्षेत्रफल 858 वर्ग फुट) में सभी वर्तमान और भावी अधिनियम के साथ रिहा। पूर्व-प्लाट नंबर, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर-मोहम्मद/मंगू जी रोड, दक्षिण- आम रास्ता। रेलमनारा के उप पंजीकरण जिले और रावसमर (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।	31.05.2023	रु. 3,58,267/- (रुपये तीन लाख अठानव हजार दो सौ सस्रठ मात्र)	16 मई, 2024

तिथि: 17.05.2024, स्थान: रावसमर, अधिकृत प्राधिकारी, इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

AXIS BANK एक्सिस हाऊस, स्ट्रुट्स असेट्स ग्रुप, प्लॉट 1-14, टॉवर 4, चौथा तल, सेक्टर 128, नोएडा (उ.प्र.) - 201304, फोन नं. 0120-6210933

कब्जा सूचना

प्रतिकृत ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ के पठित परिशिष्ट IV के अनुसार

यूएफ, एक्सिस बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिकृत ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिकृत ब्याज के (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि को अदा करने के लिए आर्मानित करते हुए कर्जदारों, गारंट और रेहनकर्ता को धिसा नोटिस दिनांक 07.03.2022 जारी किया था और 25.03.2022 को विजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) और विजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी) नामक दो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ।

कर्जदार/गारंट/रेहनकर्ता द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/गारंट/रेहनकर्ता व सामान्य तौर पर जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आसितियों के (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित राशि को यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गारंट/रेहनकर्ताओं के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों के अंतर्गत प्रतिकृत परिसंपत्तियों को मुक्त करवाने के लिए समय उपलब्ध है।

कर्जदारों, गारंट और रेहनकर्ता को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्तियों के साथ लेन-देन करने से एतद्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्तियों के साथ कोई भी लेन देन एक्सिस बैंक के प्रचार के अधीन होता है।

कर्जदार/गारंट/रेहनकर्ता के नाम	अवल सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस में तिथि
1. मेरस प्रीसिटेड एनक्लेजर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (उपकर्ता रेहनकर्ता और ड्राइवर्/मेकेटर), डी-18/46ए, पुराना गोविंदपुरा, चंद्र नगर, नई दिल्ली-110051 और यहां भी: औद्योगिक प्लॉट नंबर 24, सेक्टर 7, औद्योगिक क्षेत्र, आईआईटी पंजनगर, यु.एस.नगर, उत्तरांचल और प्लॉट नंबर सी-201, सेक्टर 63, फेज-3, नोएडा उत्तर प्रदेश,	1. प्लॉट नंबर 24, सेक्टर 7, (खसरा नंबर 411, 412, 414) पर 360 वर्ग मीटर की भूमि और भवन पर सांयिक बंधन, सीमाबद्ध: पूर्व- प्लॉट नंबर 39 और 40, पश्चिम- सड़क, उत्तर- प्लॉट नंबर 23, दक्षिण- प्लॉट नंबर 25 गांव कल्याणपुर (आईआईटी पंजनगर) तहसील किच्छा, जिला उधम सिंह नगर में स्थित है।	07.03.2022	15.05.2024	31.01.2022

देय राशि होने के नाते 4,63,66,977.48 रु. (रुपये चार करोड़ सिराठ लाख छियासठ हजार नौ सौ सतहतर और अड़तालीस मात्र) (इसमें 31.08.2020 तक अर्जित लागू ब्याज शामिल है) और भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ अन्य शुल्क।

1. श्री परवीन कोहली (गारंट) 3ए/122, जैसी ग्रीड, वैभव खंड, इंदिरापुरम, सिआ सन सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, 3. श्री सुनील कोहली (गारंट) 3ए/123, जैसी ग्रीड, वैभव खंड, इंदिरापुरम, सिआ सन सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, 4. सुशी अंश कोहली (गारंट) 3ए/122, जैसी ग्रीड, वैभव खंड, इंदिरापुरम, सिआ सन सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, 5. सुशी सीमा कोहली (गारंट) 3ए/123, जैसी ग्रीड, वैभव खंड, इंदिरापुरम, सिआ सन सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, 6. श्री साहिल कोहली (गारंट) 3ए/122, जैसी ग्रीड, वैभव खंड, इंदिरापुरम, सिआ सन सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, 7. मेरस प्रीसिटेड इंडीपेंडेंट (गारंट और रेहनकर्ता) प्लॉट नंबर सी-200, सेक्टर 63, फेज-3, नोएडा इस्क अलावा: डी 18/46ए, पुराना गोविंदपुरा, चंद्र नगर, दिल्ली-110051

दिनांक: 17.05.2024 स्थान: पंजनगर, एमआईआईसीएल (प्राधिकृत अधिकारी), एक्सिस बैंक लि.

YES BANK पंजीकृत और कोर्पोरेट कार्यालय: यस बैंक हाउस, ऑफ मेरस एफएसए इवई, सेताकूज इस्ट, मुंबई - 400055
सीआईएन: L65190MH2003PLC143249 ईमेल: communications@yesbank.in वेबसाइट: www.yesbank.in

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के तहत - अवल संपत्ति के लिए)

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्राधान्यों के तहत और सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी यस बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप में मांग नोटिस जारी कर यहाँ उल्लिखित संबंधित उपधर्कताओं से उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को 60 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान का आदेश किया है।

संबंधित उपधर्कता उक्त राशि भुगतान के लिए, इस्फूर्ति उपधर्कताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे उल्लिखित कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से संबंधित उपधर्कताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्तियों के साथ सीधा न करें और इन संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन नीचे उल्लिखित संबंधित राशि के लिए यस बैंक लिमिटेड के अनुबंधित या सहित शुल्क के अधीन होता है।

क्र. सं.	उपधर्कता का नाम	ऋण खाता संख्या	निचरी रकमी नई संपत्ति का विवरण	सूचना के अनुसार राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि
1	1)मेरस क्वालिटी ट्रेडर (उपधर्कता) 2) श्री अमर बंसल (गारंट/बंधककर्ता) 3) श्री नरेश कुमार बंसल (गारंट) 4) श्री अश्विनी बंसल (गारंट)	00888460 0000388	सामान खसरा नंबर 815 क्षेत्रफल 153.28 वर्गमीटर में स्थित है, जो पुडिया बाग, तहसील कोहल, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के पास कच्चा कोहल में स्थित है। सीमाएं- पूर्व- नरेश कुमार बंसल का प्लॉट, पश्चिम- 15 फीट सीटी, दक्षिण- उत्तर- प्रशांत बंसल की जमीन का शेष हिस्सा, दक्षिण- विद्यनाथ की संपत्ति	दिनांक 06.02.2024 को रु. 33,48,327.85 (तीस लाख अड़तालीस हजार पचासी पैसे मात्र)	09/02/2024 16/05/2024

यह आपसे ध्यान में लाया है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(6) के तहत, जहां सुरक्षित ऋणदाता द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ सुरक्षित ऋणदाता की बकाया राशि सुरक्षित ऋणदाता को पहले किराई की जाती है। संबंधित नीलाधनीयताओं/राशि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख, सुरक्षित संपत्ति को बेचा या स्वामित्व नहीं किया जाएगा और उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या विक्री के लिए कोई भी कर्ज नहीं ठहरा जाएगा।

दिनांक: 16-05-2024 स्थान: आगरा (यूपी)

हस्ता/प्राधिकृत अधिकारी यस बैंक लिमिटेड

आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित।

जबकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएफएलएफएलएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप में और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले ही अधिनियम, की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर चुका है यहां नीचे सूचीबद्ध उपधर्कताओं/सह-उपधर्कताओं/गारंटियों/समी को अकेले या एक साथ देना/पर करने के रूप में संबंधित/कानूनी उपधर्कताओं/कानूनी प्रतिभूतियों को भुगतान करने के लिए दवा देता है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित डिमांड नोटिस/नोटिसों के उल्लिखित राशि, संबंधित नोटिस/नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत पत्र पर एजी द्वारा दी जाती हैं। और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त शक्तियों/कानूनी उपधर्कताओं/कानूनी प्रतिभूतियों, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एक बार किए गए दायित्वकारी/कानूनी उपधर्कताओं/कानूनी प्रतिभूतियों को संबंधित नोटिस/नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर आईएफएलएफएलएल को भुगतान करने का नोटिस दिया जाता है। नीचे उल्लिखित नामों के सामने दर्शाई गई राशि, नीचे दिए गए कॉलम में उल्लिखित संबंधित तारीखों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक दिए गए अतिरिक्त बकाया के साथ, ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो, के साथ, उक्त बकायाका अंश निष्पत्ति ऋण के उचित पुनर्मुताबक के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित संपत्ति को कथित दायित्वकर्ता द्वारा क्रमशः आईएफएलएफएलएल को निचरी रकमी देना।

ऋण खाता संख्या	दायित्वकारी/कानूनी उपधर्कताओं/कानूनी प्रतिभूतियों का नाम	नीचे दी गई तारीख तक कुल बकाया राशि (रु.)	डिमांड नोटिस की तारीख और प्लॉट/राशि की तारीख	संपत्ति संख्या	संयोजित परिशिष्टों/अवल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण
LXDEL 00418-190000 441	मि. प्यारे गिया श्रीमती मेहशाना बेगम	24.04.2024 तक राशि रु. 18,29,902/- (अठारह लाख उन्नीस हजार नौ सौ दो रुपये मात्र)	डिमांड नोटिस की तारीख 25.04.2024	एम्पीए की तारीख 20.04.2024	संपत्ति संख्या एन-195, क्षेत्रफल 38 वर्ग गज इसके समी छत/उप अधिकारों के साथ, खसरा नंबर 20/4/1 से बाहर, ग्राम ख्याल के क्षेत्र में स्थित है और कॉलोनी विसे विष्णु गांव, नई दिल्ली-110018 के नाम से जाना जाता है, जिसकी सीमा निम्नानुसार है: पूर्व- शीर्षक के अनुसार, उत्तर- शीर्षक क्षेत्र के अनुसार, उत्तर- शीर्षक क्षेत्र के अनुसार, दक्षिण- शीर्षक क्षेत्र के अनुसार
LNDEL 00418-190000 475	श्री दिलीपी जी श्रीमती पूजा	30.04.2024 तक राशि रु. 11,40,090 (ग्यारह लाख चालीस हजार नब्बे रुपये मात्र)	डिमांड नोटिस की तारीख 02.05.2024	एम्पीए की तारीख 20.04.2024	संपत्ति संख्या - डीडीए जस्ता प्लेट नंबर 120, निवा छत के प्रथम तल, ब्लॉक-जी, पॉस्ट-9, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-10085। जिसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व- शीर्षक क्षेत्र के अनुसार, पश्चिम- शीर्षक क्षेत्र के अनुसार, उत्तर- शीर्षक क्षेत्र के अनुसार, दक्षिण- शीर्षक क्षेत्र के अनुसार

पॉल मर्चेन्स लि. (आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित क.) (CIN: L74900DL1984PLC018679)
संयुक्त कार्यालय: एससीओ 829-830, सेक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022, फोन: 0172-5041786, 5025990, फैक्स: 0172-5041709, ई-मेल: info@paulmerchants.net, वेबसाइट: www.paulmerchants.net, पंजीकृत कार्यालय: डीएसएम 385, 386, 387, 3रा तल, डीएएफ टावर, 15, सिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 011-47529460

क्र. सं.	वित्तीय/वित्तीय	31.03.2024 को समाप्त तिथि	पूर्व वर्ष में 31.03.2023 को समाप्त समरूपी तिमाही	31.03.2024 को वर्ष दर वर्ष आंकड़े	31.03.2023 को समाप्त पूर्व वर्ष	31.03.2024 को समाप्त तिमाही	पूर्व वर्ष में 31.03.2023 को समाप्त समरूपी तिमाही	31.03.2024 को वर्ष दर वर्ष आंकड़े	31.03.2023 को समाप्त पूर्व वर्ष
1.	प्रचालनों से कुल आय	85,542.71	166,817.04	650,184.37	689,975.80	90,115.10	169,760.53	666,657.64	701,089.89
2.	अवधि के लिए कुल लाभ (कर, विरोध तथा/या असाधारण मदें से पूर्व)	368.67	839.30	3,513.77	3,495.88	1,227.84	1,102.67	7,310.67	5,970.75
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदें के बाद)	368.67	839.30	3,513.77	3,495.88	1,227.84	1,094.13	7,280.17	5,962.21
4.	कर के बाद अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदें के बाद)	279.70	644.20	2,612.48	2,598.40	933.59	843.39	5,462.56	4,401.17
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लाभ/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल करके]	280.08	645.66	2,591.62	2,580.64	938.11	844.67	5,443.57	4,387.44
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	308.40	102.80	308.40	102.80	308.40	102.80	308.40	102.80
7.	पूर्व वर्ष के तुलन पर में दशाए अनुसार आरंभित (पुनः मूल्यबोध आरंभित) को छोड़कर	एएए	एएए	47,317.99	44,931.97	एएए	एएए	56,211.75	50,973.78
8.	आय प्रति शेयर (10/- रूपर प्रति जारी तथा बंद प्रचलनों के लिए	1. मूल 9.07	20.89	84.71	84.25	30.27	27.35	177.13	142.71
	2. तनुकृत 9.07	20.89	84.71	84.25	30.27	27.35	177.13	142.71	142.71

टिप्पणी: ए) उपरोक्त सेबी (एलओडीआर), विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अधीन शेयर बाजार में दायित्व के तिमाही और वार्षिक विवरणों के विस्तृत प्राप्ताप का सार है। तिमाही परिणामों के पूर्ण प्राप्ताप वीएएस लिमिटेड की वेबसाइट <http://www.bseindia.com> और कंपनी की वेबसाइट <http://www.paulmerchants.net> पर भी उपलब्ध है।
बी) अधिनियम 2015 के अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया गया है।
सी) दिनांक 31.03.2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त लेखापरीक्षित स्टैंडार्ट्स एवं कंसीलिटिड वित्तीय परिणामों की 15.05.2024 को आयोजित बैठक में ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है। दिनांक 16.05.2024 को आयोजित निदेशकों के बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदित और रिपोर्ट पर लिया है।
डी) सीडीएनसी वचं के दौरान, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पॉल मर्चेन्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पीएमएफएल) की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति में बताई गई 30.5 लाख रुपये की आकस्मिक देनदारी का 28 अगस्त, 2023 को उक्त सहायक कंपनी द्वारा 27 अगस्त, 2021 को पीपीआई पर मास्टर दिनांकित के पैरा 9.1(ii)(डी) के तहत आवेजीआई के अधीन आदेश की प्रतिक्रिया प्राप्त पूरा भुगतान किया गया है। इसे पीएमएफएल के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के साथ-साथ समूह के समेकित वित्तीय परिणामों में एक असाधारण आइटम के रूप में प्रकट किया गया है। उपरोक्त अवधि के लिए रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास कोई अन्य असाधारण या असाधारण वस्तु नहीं है।

बोर्ड के आदेशानुसार हस्ता/प्राधिकृत अधिकारी चंडीगढ़ 16.05.2024

नैनीताल बैंक इ-नीलामी सूचना
गोवर मार्केट, गुरु नानक मार्केट गदरपुर, जिला: उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) फोन-05949-231994 ई-मेल: gadarpur@nainitalbank.co.in

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत ऑनलाइन इ-नीलामी के माध्यम से आसितियों की विक्री

प्रतिकृत हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) और 9 के साथ पठित प्रतिकृत हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आसितियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण 2002 के तहत आसितियों की विक्री हेतु इ-नीलामी विक्री सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में नैनीताल बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते कर्जदारों सहित निम्नलिखित प्रतिकृत ऋण प्राप्त किए थे। निम्नलिखित कर्जदारों एवं सह-कर्जदारों के ऋण उन्नीची संवधि समाप्तियों के बावजूद प्राप्त प्रतिकृत किए गए थे। वृद्धि से संबंधित ऋण अनुबंधों के निष्पत्ति एवं शांति का पालन करने में असफल रहे और अधिनियम की एच. 9 एवं अध. 10 के तहत आदेशों/आदेशों दिनांकित दिनांकित के अनुसार एमपीए की अनुमति प्राप्त किए जा चुके हैं। उक्त ऋण एमडीएफसी बैंक लिमिटेड को देय शेष राशि नीचे तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू अनुसार देत होगा जो उसकी संबंधित तिथि से प्रभावित किया जाएगा।

कर्जदार (यों) / जमानती (यों) का नाम तथा पता

(1) परलिनर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी-बाराखेड़ा, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड-263152 (उपधर्कता), (2) श्री निशास सिंह पुत्र गोपेन्द्र सिंह, निवासी-सूरजपुर, बैसिया, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड-263152 (गारंट), (3) श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री बिरसा सिंह निवासी गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड-263152 (गारंट)

1. राजरव राम मैसिया, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड में स्थित खाता संख्या 00238, खसरा संख्या 273/389 पिन 161.71 नं. मीटर पर स्थित संपत्ति का पूरा हिस्सा और पारस नदी पवनर सिंह पुत्र के नाम पर प्रीतम सिंह निवासी बाराखेड़ा, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड 263152। टाइटल डीड विधिगत उप रजिस्ट्रार कार्यालय बाजपुर बडी नंबर 1, जिल्ड नंबर -1145, फुट 1-26 क्रमांक संख्या - 7669 दिनांक 08. 12.2011 पर पंजीकृत है। पितृ: पूर्व-हिमला देवी का प्लॉट, पश्चिम-महल सिंह का मूखंड, उत्तर- 12' रोड, दक्षिण- विक्रेता का विश्राम स्थल।

धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि धारा 13 (4) के तहत कब्जा करने की तिथि तथा कुल बकाया, वसूली को घटकर, यदि कोई हो

10.09.2021

17.01.2021

रु. 9,12,967.00 (रुपये नौ लाख बारह हजार नौ सौ सड़सठ मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्च तथा घटाए वसूली यदि कोई हो

कब्जे की स्थिति

भौतिक

ईएमपी/बिड राशि जमा करने हेतु खाता संख्या

खाता संख्या 0524020920000025 आईएफएससी कोड: NTBLOGAD052 या नैनीताल बैंक लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक की गदरपुर शाखा में जमा किया जाना चाहिए।

ईएमपी जमा करने की तिथि व समय

ई-नीलामी की तिथि व समय

31.05.2024 सायं 4:00 बजे तक

ई-नीलामी: 01.06.2024, 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप. तक (5 निमत प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)

सम्पत्ति के विवरण की तिथि व समय

30.05.2024 प्रातः 10:00 बजे से 03:00 बजे तक

आरंभित मूल्य

ईएमपी

बोली बढाने की न्यूनतम राशि

रु. 7.55 लाख (रुपये सात लाख पचसह हजार मात्र)

रु. 0.76 लाख (रुपये छहतर हजार मात्र)

रु. 10000.00 (रुपये दस हजार मात्र)

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> के माध्यम से सार्वजनिक - नीलामी संचालित करने जा रहे हैं।

कर्जदार (यों) / जमानती (यों) का नाम तथा पता	सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि धारा 13 (4) के तहत कब्जा करने की तिथि तथा कुल बकाया, वसूली को घटकर, यदि कोई हो	कब्जे की स्थिति	ईएमपी/बिड राशि जमा करने हेतु खाता संख्या	ईएमपी जमा करने की तिथि व समय	सम्पत्ति के विवरण की तिथि व समय	आरंभित मूल्य
(1) परलिनर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी-बाराखेड़ा, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड-263152 (उपधर्कता), (2) श्री निशास सिंह पुत्र गोपेन्द्र सिंह, निवासी-सूरजपुर, बैसिया, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड-263152 (गारंट), (3) श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री बिरसा सिंह निवासी गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड-263152 (गारंट)	1. राजरव राम मैसिया, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड में स्थित खाता संख्या 00238, खसरा संख्या 273/389 पिन 161.71 नं. मीटर पर स्थित संपत्ति का पूरा हिस्सा और पारस नदी पवनर सिंह पुत्र के नाम पर प्रीतम सिंह निवासी बाराखेड़ा, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड 263152।						